



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 1981/अग्राहायण 4, 1903

No. 46] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 1981/AGRAHAYANA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1981

आ. अ. 87 (अ).—मध्य प्रदेश राज्य में 5-सागर (अ. ज.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्या श्रीमती सहोदराबाई राव की मृत्यु हो जाने के कारण उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 48) की धारा 149 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 31 दिसम्बर, 1981 में पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और अवशेषों के उपबन्धों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति निर्वाचित करे ।

[सं. 100/स.प्र.-लो.म./1/81 (1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th November, 1981

O.N. 87(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by the reason of the death of Shrimati Sahodrabai Rai a member elected to that House from 5-Sagar (SC) Parliamentary constituency in the State of Madhya Pradesh,

988 GI/81

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person belonging to the Scheduled Caste in the State of Madhya Pradesh to fill the said vacancy before 31st December, 1981 in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and orders made thereunder.

[No 100/MP-HP/1/81 (1)]

आ. अ. 88 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 48) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/स.प्र.-लो. सं./1/81 (1), तारीख 25 नवम्बर, 1981 के अनुसरण में 5-सागर (अ. ज.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| (क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख        | 2 दिसम्बर, 1981<br>(बुधवार)      |
| (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख          | 3 दिसम्बर, 1981<br>(बृहस्पतिवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख   | 5 दिसम्बर, 1981<br>(शनिवार)      |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा । | 27 दिसम्बर, 1981<br>(रविवार) और  |

(क) वह तारीख जिसके पूर्व  
निर्वाचन समाप्त कर  
दिया जाएगा ।

31 दिसम्बर, 1981  
(बृहस्पतिवार)

नियत करता है ।

[सं. 100/म.प्र.-लो.स./1/81 (2)]

O.N. 88(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints with respect to the bye-election to be held in 5-Sagar (SC) Parliamentary constituency in the State of Madhya Pradesh in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/1/81(1) dated 25th November, 1981 :—

- (a) the 2nd December, 1981 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 3rd December, 1981 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 5th December, 1981 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 27th December, 1981 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 31st December, 1981 (Thursday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MP-HP/1/81 (2)]

आ. अ. 89(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अन्वये निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/म.प्र.-लो.स./1/81 (1) तारीख 25 नवम्बर, 1981 के अन्वये 5-सागर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा ।

[सं. 100/म.प्र.-लो.स./1/81 (3)]

आदेश से,

क. गणेशन, सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 89(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 5-Sagar (SC) Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/1/81 (1), dated 25th November, 1981.

[No. 100/MP-HP/1/81 (3)]

By Order,

K. GANESAN, Secy. to the Election Commission of India.